

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 401]

नवा रायपुर, गुरुवार, दिनांक 1 मई 2025 — वैशाख 11, शक 1947

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 28 अप्रैल 2025

अधिसूचना

क्रमांक एफ 12-4/2020/मबावि/50.— किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 यथा संशोधित 2021 की धारा 04 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार द्वारा दिनांक 07-01-2025 को किशोर न्याय बोर्ड के सामाजिक कार्यकर्ता पद के लिए नियुक्ति अधिसूचना जारी की गई थी। अधिसूचना के सरल क्रमांक-6 पर जिला कांकेर के किशोर न्याय बोर्ड में सामाजिक कार्यकर्ता पद पर श्री विनोद कुमार यादव को नियुक्त किया गया था।

2/ माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर में याचिका क्रमांक WPC No. 4536/2024 श्री गजानंद साहू विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य 02 का प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण अधिसूचना के कण्डिका 12 में “माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण WPC क्रमांक 4536/2024 के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक कार्यकर्ता किशोर न्याय बोर्ड, कांकेर में की गयी नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण में लिये गये निर्णय के अध्वधीन होगी।” संबंधी लेख करते हुए सशर्त अधिसूचना जारी की गई थी।

3/ माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर में याचिका क्रमांक WPC No. 4536/2024 श्री गजानंद साहू विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य 02 में पारित आदेश दिनांक 15-01-2025 की कंडिका 6 में निम्नानुसार लेख है— “The respondents/State are directed to take a fresh steps for appointment to the post of Social Worker (Juvenile Justice Board).” तदनुसार सामाजिक कार्यकर्ता किशोर न्याय बोर्ड कांकेर में नियुक्ति हेतु नवीन प्रक्रिया की जानी होगी।

4/ उपरोक्तानुसार माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका क्रमांक WPC No. 4536/2024 के प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 15-01-2025 के पालन में राज्य शासन एतद् द्वारा किशोर न्याय बोर्ड कांकेर के सामाजिक कार्यकर्ता पद पर श्री विनोद कुमार यादव की नियुक्ति को निरस्त किया जाता है।

5/ श्री विनोद कुमार यादव की नियुक्ति निरस्त होने के फलस्वरूप सामाजिक कार्यकर्ता, किशोर न्याय बोर्ड कांकेर में रिक्त होने वाले उक्त पद की पदपूर्ति हेतु माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में पुनः विज्ञापन जारी कर नियुक्ति हेतु नवीन प्रक्रिया की जावेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणुका श्रीवास्तव, उप-सचिव.